



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 2007/फाल्गुन 10, 1928

No. 217]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2007/PHALGUNA 10, 1928

वस्त्र मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2007

New Delhi, the 1st March, 2007

का.आ. 307(अ).—राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2006 (2006 का 28) की धारा (3) के खंड 3 की उप-धारा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के विजिटर, एतद्द्वारा श्री डी. पी. सिंह, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) को 1-4-2007 से अथवा उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी बाद में हो, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यक्ष के रूप में श्री डी. पी. सिंह की शर्तें अलग से जारी की जाएंगी।

[फा. सं. 1/35/2006-निफ्ट सेल]

भूपेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 307(E).— In exercise of the powers conferred by Clause 3 of Sub-section (a) of Section (3) of the National Institute of Fashion Technology Act, 2006 (28 of 2006), the President of India and Visitor of the National Institute of Fashion Technology hereby appoints Shri D.P. Singh, IAS (Retd.) as Chairman of the National Institute of Fashion Technology for a period of three years w.e.f. 1-4-2007 or the date on which he assumes charge of the post or until further orders, whichever is later.

The Terms and Conditions of appointment of Shri D.P. Singh as Chairman, National Institute of Fashion Technology would be issued separately.

[F. No. 1/35/2006-NIFT Cell]

BHUPENDRA SINGH, Jt. Secy.